

कृषि विज्ञान केन्द्र बरेली द्वारा बिथरी चैनपुर किसान मेले में भागीदारी

कृषि विभाग द्वारा किसान कल्याण मिशन के अन्तर्गत विकास खण्ड बिथरी चैनपुर के प्रांगण में एक दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया जिसके मुख्य अतिथि माननीय विधायक बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र श्री राजेश मिश्रा (पप्पू भरतौल) थे। उन्होंने अपने सम्बोधन में बताया की वर्तमान सरकार समाज के गरीब वर्गों, किसानों और मजदूरों के लिये निरन्तर लाभदायी योजनायें ला रही है और इस मेले में भाग ले रहे सभी विभागों से अनुरोध है कि वे सरकार की इन योजनाओं तथा अपने-अपने विभागों योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचायें जिससे समाज के गरीब वर्गों, किसानों और मजदूरों को इन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ मिल सके। इससे पूर्व उन्होंने मेले में आगमन के समय 12 विभागों, 3 स्वयं सहायता समूहों तथा फसल



अवशेष प्रबन्धन के यंत्रों कि प्रदर्शनी का भ्रमण किया तथा मेले में स्टॉल लगाने वालों से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 100 से अधिक लाभार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित किये जिसमें आवास बनाने के लिये कृषकों तथा ग्रामीण महिलाओं को तीन किशतों में एक लाख बीस हजार रुपये तथा मनरेगा योजना के अन्तर्गत रुपये 18,000 की मजदूरी दिये जाने का प्रावधान है।



इससे पूर्व मेले के अवसर पर आयोजित किसान गोष्ठी में कृषि विज्ञान केन्द्र, बरेली के विषय वस्तु विशेषज्ञ श्री राकेश पाण्डे ने उपस्थित कृषकों तथा कृषक महिलाओं को कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुये अपनी आय बढ़ाने के लिये कृषि विविधिकरण के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र से विभिन्न रोजगारों से संबन्धित प्रशिक्षण लेने के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने रबी मौसम की फसलों सरसों, गेहूँ, गन्ना में कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने की तकनीकें बतायीं तथा फसल अवशेष प्रबन्धन, किसान बिल तथा कृषक उत्पादक संघ के गठन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। किसान गोष्ठी में पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, खण्ड विकास अधिकारी आदि ने भी अपने विभाग की योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। मेले में 407 किसानों तथा किसान महिलाओं ने भागीदारी की।